

रिपोर्ट तैयार करने के बारे में बातचीत की है। कोलम्बो योजना के अधीन 25000 पौंड के भुगतान के लिए आवश्यक अनुमति दे दी गई है। परियोजना: रिपोर्ट लगभग छः महीने की अवधि में तैयार हो जायेगी। सामान्यतः नया कामज एक बार से पांच वर्ष की अवधि में उत्पादन शुरू कर देता है।

Circulation figure of "Dainik Avantika" of M.P.

5191. SHRI MAHADEEPAK SINGH SHAKYA:
SHRI HUKAM CHAND
KACHWAI:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state.

(a) whether Government are aware that the actual circulation of "Dainik Avantika" of Madhya Pradesh is still less than what has even claimed; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA): (a) and (b). As a result of an on-the-spot check by a circulation team of the office of the Registrar of Newspapers, the circulation of the Hindi daily 'Avantika' for the calendar years 1969 and 1970 was assessed, in June 1971, at 2,500 copies. This was lower than what the publisher had claimed for the concerned period. The circulation of the daily is being rechecked next year.

भारत द्वारा श्री हरिकोटा रेंज से प्रथम उपग्रह छोड़ने का कार्यक्रम रद्द करना

5192. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या

अन्तरिक्ष मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या श्री हरिकोटा रेंज से प्रथम भारतीय उपग्रह अन्तरिक्ष में छोड़ने की योजना रद्द कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की भावी योजना क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री (असतो इन्द्रियाणी): (क) भारत में अभिकल्पित एवं निर्मित पहला उपग्रह सोवियत राकेट कैरियर की सहायता से रूस की भूमि में छोड़ा जायेगा। तथापि, भारत की भूमि से पहली बार उपग्रह श्री हरिकोट रेंज से छोड़ा जायेगा।

(ख) पहले उपग्रह को रूस की भूमि से छोड़ने का उद्देश्य यह है कि अपेक्षा कृत बड़े आकार के उपग्रहको निर्धारित तिथि से पहले छोड़ा जा सके।

(ग) भारत में उपग्रह को छोड़ने की क्षमता का विकास करने के कार्यक्रम का विस्तृत विवरण 1970-80 के दशक की परमाणु ऊर्जा तथा अन्तरिक्ष अनुसंधान सम्बन्धी रूपरेखा में दिया गया है। तथापि, इस कार्यक्रम को पाचवी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए इसके विवरण का समयानुकूल बनाया जा रहा है।

Production of News Print by Private Sector and through expansion of Nepa Mills

5193. DR. H. P. SHARMA: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state::

(a) whether to step up the production of newsprint in the country, Government have approved 3 private sector newsprint projects and have also decided to expand the capacity of the Nepa Mills in the public sector; and